

क्र०सं०	खेल विधा का नाम	विशिष्टता तथा कोड		कोड	पुरुष खिलाड़ियों की संख्या			महिला खिलाड़ियों के इवेंट	महिला खिलाड़ियों की संख्या	
					नागरिक पुलिस	पी०ए०सी०	योग			
1	वाटर स्पोर्टस A	रोइंग 500 मी० A-1	सिंगल स्कल	A-11	-	2	2	-	-	
			डबल स्कल	A-12	-	2	2	-	-	
			पेयर(लेफ्ट/राईट)	A-13	-	2	2	-	-	
		रोइंग 2000 मी० A-2	सिंगल स्कल	A-21	-	2	2	-	-	
			डबल स्कल	A-22	-	2	2	-	-	
			पेयर(लेफ्ट/राईट)	A-23	-	2	2	-	-	
		क्याक 500 मी० A-3	के-01	A-31	-	6	6	-	-	
			के-02	A-32	-	2	2	-	-	
		क्याक 1000 मी० A-4	के-01	A-41	-	4	4	-	-	
			के-02	A-42	-	2	2	-	-	
		कैनोइंग 500 मी० A-5	सी-1 (लेफ्ट)	A-51	-	1	1	-	-	
			सी-1 (राईट)	A-52	-	1	1	-	-	
			सी-2 (लेफ्ट)	A-53	-	1	1	-	-	
			सी-2 (राईट)	A-54	-	1	1	-	-	
			सी-4 (लेफ्ट)	A-55	-	2	2	-	-	
			सी-4 (राईट)	A-56	-	2	2	-	-	
		कैनोइंग 1000 मी० A-6	सी-1 (लेफ्ट)	A-61	-	1	1	-	-	
			सी-1 (राईट)	A-62	-	1	1	-	-	
			सी-2 (लेफ्ट)	A-63	-	1	1	-	-	
			सी-2 (राईट)	A-64	-	1	1	-	-	
			सी-4 (लेफ्ट)	A-65	-	2	2	-	-	
			सी-4 (राईट)	A-66	-	2	2	-	-	
		योग					42	42		
		2	बालीबाल B	यूनिवर्सल अटेकर		B-1	1	-	1	-
अटेकर (लेफ्ट साइड हिटर)				B-2	1	1	2	-	1	
अटेकर (राइट साइड हिटर)				B-3	1	1	2	-	2	
यूनिवर्सल अटेकर (लेफ्ट साइड)				B-4	1	1	2	-	1	
यूनिवर्सल अटेकर (राइट साइड)				B-5	1	1	2	-	1	
सेन्डल ब्लाकर (मिडिल)				B-6	3	2	5	-	2	
सेटर				B-7	1	2	3	-	1	
लीब्रो				B-8	-	1	1	-	-	
योग					9	9	18	8		
3	बार्सेट बाल C	प्लाइंट गार्ड		C-1	1	2	3	-	1	
		पावर फारवर्ड		C-2	2	2	4	-	2	
		फारवर्ड		C-3	2	2	4	-	2	
		सेण्टर		C-4	4	2	6	-	4	
योग					9	8	17	9		
4	कबड्डी D	लेफ्ट कानर (डिफेन्डर)		D-1	1	1	2	-	1	
		राइट कानर (डिफेन्डर)		D-2	1	1	2	-	1	
		लेफ्ट कवर (डिफेन्डर)		D-3	1	1	2	-	1	
		राइट कवर (डिफेन्डर)		D-4	1	1	2	-	1	
		रेडर		D-5	1	1	2	-	1	
		आलराउन्डर		D-6	1	1	2	-	1	
योग					6	6	12	6		
5	फुटबाल E	गोल कीपर		E-1	1	1	2	-	2	
		डिफेन्डर		E-2	4	2	6	-	6	
		मिड फील्डर		E-3	2	4	6	-	8	

क्र०सं०	खेल विधा का नाम	विशिष्टता तथा कोड	कोड	पुरुष खिलाड़ियों की संख्या			महिला खिलाड़ियों के इवेंट	महिला खिलाड़ियों की संख्या
				नागरिक पुलिस	पी०ए०सी०	योग		
		स्ट्राइकर (फॉरवर्ड)	E-4	3	2	5	-	6
		योग		10	9	19		22
6	टेबल टेनिस F	सिंगल्स	F-1	6	3	9	-	8
		योग		6	3	9		8
7	बैडमिन्टन G	ओपन सिंगल्स	G-1	6	4	10	-	6
		योग		6	4	10		6
8	कासकण्ट्री H	10 किमी०	H-1	10	2	12	-	8
		योग		10	2	12		8
9	हॉकी I	गोल कीपर	I-1	1	1	2		2
		फुल बैक (डिफेन्डर)	I-2	4	2	6		5
		मिड फील्डर	I-3	4	2	6		5
		फॉरवर्ड(स्ट्राइकर)	I-4	4	2	6		5
		योग		13	7	20		17
10	तीरंदाजी J	इण्डियन राउण्ड	J-1	2	1	3		2
		रिकर्व राउण्ड	J-2	4	2	6		4
		कम्पाउण्ड राउण्ड	J-3	4	2	6		4
		योग		10	5	15		10
11	जिम्नास्टिक K	आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक	-	-	-	-	-	-
		फ्लोर एक्सरसाइज	K-1				फ्लोर एक्सरसाइज K-2	10
		पैरलल बार	K-2				अनइवेन बार्स K-7	
		वाल्ट	K-3	8	6	14	वाल्ट K-8	
		पामेल हार्स	K-4				बैलन्स बीम K-9	
		स्टील रिंग	K-5				-	
		होरिजेन्टल बार	K-6				-	
		योग		8	6	14		
12	भारोत्तोलन L	भारवर्ग(55 से 73 किग्रा०)	L-1	3	3	6	भारवर्ग(45 से 59 किग्रा०) L-4	4
		भारवर्ग(73 से 96 किग्रा०)	L-2	4	2	6	भारवर्ग(59 से 76 किग्रा०) L-5	3
		भारवर्ग(96 से 102 किग्रा०)	L-3	-	2	2	-	-
		योग		7	7	14		7
		साण्डा (सांशऊ)	-	-	-	साण्डा (सांशऊ)	-	
		48-60 किग्रा०	M-1	2	1	3	45-52 किग्रा० M-5	2

क०सं०	खेल विधा का नाम	विशिष्टता तथा कोड	कोड	पुरुष खिलाड़ियों की संख्या			महिला खिलाड़ियों के इवेंट	महिला खिलाड़ियों की संख्या
				नागरिक पुलिस	पी०ए०सी०	योग		
13	बुशू M	60-75 किग्रा०	M-2	2	1	3	52-60 किग्रा० M-6	2
		75-90 किग्रा०	M-3	2	1	3	60-70 किग्रा० M-7	2
		90+ किग्रा०	M-4	-	1	1	-	-
		योग		6	4	10		6
14	जूडो N	60-66 किग्रा०	N-1	2	2	4	48-52 किग्रा० N-4	2
		66-81 किग्रा०	N-2	1	2	3	52-63 किग्रा० N-5	1
		81-100 किग्रा०	N-3	1	2	3	63-78 किग्रा० N-6	1
		योग		4	6	10		4
15	बाक्सिंग O	46-57 किग्रा०	O-1	1	1	2	45-54किग्रा० O-5	2
		57-71 किग्रा०	O-2	2	2	4	54-66 किग्रा० O-6	2
		71-92 किग्रा०	O-3	1	2	3	66-81किग्रा० O-7	2
		92+ किग्रा०	O-4	-	1	1	-	-
		योग		4	6	10		6
16	एथलेटिक्स P	100मी०, दौड़	P-1	2	-	2	-	2
		200मी० दौड़	P-2	2	1	3	-	1
		400मी० दौड़	P-3	1	-	1	-	1
		800मी० दौड़	P-4	1	1	2	-	2
		1500मी० दौड़	P-5	2	1	3	-	1
		3000मी० स्टीपल चेंस	P-6	1	1	2	-	2
		110मी० बाधा दौड़	P-7	1	1	2	100 मी० बाधा दौड़ P-7	1
		400मी० बाधा दौड़	P-8	1	1	2	-	1
		5000मी० दौड़	P-9	1	1	2	-	1
		10000मी० दौड़	P-10	2	1	3	-	1
		20किमी० वाक चाल	P-11	1	1	2	-	1
		मैराथन	P-12	1	1	2	-	1
		डिकेथलान	P-13	1	1	2	-	1
		ट्रिपल जम्प	P-14	2	1	3	-	2
		लांग जम्प	P-15	1	1	2	-	1
		हाई जम्प	P-16	1	1	2	-	1
		पोल वाल्ट	P-17	1	1	2	-	1
		गोला फेंक	P-18	1	1	2	-	1
		डिस्कस थ्रो	P-19	1	1	2	-	1
		जेवलिन थ्रो	P-20	1	1	2	-	1

क०स०	खेल विधा का नाम	विशिष्टता तथा कोड	कोड	पुरुष खिलाड़ियों की संख्या			महिला खिलाड़ियों के इवेंट	महिला खिलाड़ियों की संख्या
				नागरिक पुलिस	पी०ए०सी०	योग		
		हैमर थ्रो	P-21	1	1	2	-	1
		योग		26	19	45		25
17	तैराकी Q	50मी० फ्री स्टाइल	Q-1	1	1	2	-	1
		100मी० फ्री स्टाइल	Q-2	-	-		-	1
		100मी० बैक स्ट्रोक	Q-3	1	1	2	-	1
		100मी० बटर फ्लाय	Q-4	1	-	1	-	1
		200मी० बटर फ्लाय	Q-1	1	1	2	-	1
		100मी० ब्रेस्ट स्ट्रोक	Q-2	2	-	2	-	2
		200मी० ब्रेस्ट स्ट्रोक	Q-3	-	1	1	-	-
		स्प्रिंग बोर्ड जार्इविंग 1 m	Q-4	1	-	1	-	1
		स्प्रिंग बोर्ड जार्इविंग 3 m	Q-1	1	-	1	-	1
		हार्ड बोर्ड जार्इविंग	Q-2	1	-	1	-	1
		योग		9	4	13		10
18	शूटिंग R	एयर राइफल 10मी०	R-1	1	2	3	-	1
		राइफल 50मी०	R-2	1	1	2	-	1
		एयर पिस्टल 10मी०	R-3	1	1	2	-	1
		पिस्टल 25मी०	R-4	1	2	3	-	1
		पिस्टल 50मी०	R-5	-	1	1	-	-
		रैपिड फायर पिस्टल 25मी०	R-6	-	1	1	-	-
		सेन्टर फायर पिस्टल 25मी०	R-7	-	1	1	-	-
		योग		4	9	13		4
19	साइक्लिंग S	ROAD	S-1	4	4	8	-	4
		योग		4	4	8		4
20	कुश्ती T	फ्री स्टाइल (61किग्रा०)	T-1	1	1	2	फ्री स्टाइल (53किग्रा०) T-15	1
		फ्री स्टाइल (70किग्रा०)	T-2	1	1	2	फ्री स्टाइल (55किग्रा०) T-16	1
		फ्री स्टाइल (74किग्रा०)	T-3	-	1	1	फ्री स्टाइल (57किग्रा०) T-17	1
		फ्री स्टाइल (79किग्रा०)	T-4	-	1	1	फ्री स्टाइल (59किग्रा०) T-18	1
		फ्री स्टाइल (86किग्रा०)	T-5	-	1	1	फ्री स्टाइल (62किग्रा०) T-19	1
		फ्री स्टाइल (92किग्रा०)	T-6	1	1	2	फ्री स्टाइल (65किग्रा०) T-20	1
		फ्री स्टाइल (97किग्रा०)	T-7	-	1	1	फ्री स्टाइल (68किग्रा०) T-21	1
		ग्रीको रोमन (55किग्रा०)	T-8	-	1	1	फ्री स्टाइल (72किग्रा०) T-22	1
		ग्रीको रोमन (67किग्रा०)	T-9	1	1	2	-	-
		ग्रीको रोमन (72किग्रा०)	T-10	-	1	1	-	-

क०सं०	खेल विधा का नाम	विशिष्टता तथा कोड	कोड	पुरुष खिलाड़ियों की संख्या			महिला खिलाड़ियों के इवेंट	महिला खिलाड़ियों की संख्या
				नागरिक पुलिस	पी०ए०सी०	योग		
		ग्रीको रोमन (77किग्रा०)	T-11	-	1	1	-	-
		ग्रीको रोमन (82किग्रा०)	T-12	-	1	1	-	-
		ग्रीको रोमन (87किग्रा०)	T-13	1	1	2	-	-
		ग्रीको रोमन (97किग्रा०)	T-14	1	1	2	-	-
		योग		6	14	20		8
21	कराटे U	कुमते फाइट अन्डर(55 किग्रा०)	U-1	1	-	1	कुमते फाइट अन्डर(50 किग्रा०) U-7	1
		कुमते फाइट अन्डर (60 किग्रा०)	U-2	1	-	1	कुमते फाइट अन्डर(55 किग्रा०) U-8	1
		कुमते फाइट अन्डर(67 किग्रा०)	U-3	1	-	1	कुमते फाइट अन्डर(61 किग्रा०) U-8	1
		कुमते फाइट अन्डर (75 किग्रा०)	U-4	1	-	1	कुमते फाइट अन्डर(68 किग्रा०) U-9	1
		कुमते फाइट अन्डर (84 किग्रा०)	U-5	1	-	1	कुमते फाइट अन्डर(68+ किग्रा०) U-10	1
		कुमते फाइट अन्डर(87 किग्रा०)	U-6	1	-	1		
		योग		6		6		5
22	फेंसिंग V	फायल	V-1	1	-	1	-	1
		सेवर	V-2	1	-	1	-	1
		एपी	V-3	1	-	1	-	1
		योग		3		3		3
23	ताइक्वांडो W	63 किग्रा०	W-1	1	-	1	53 किग्रा० W-3	1
		80 किग्रा०	W-2	1	-	1	62 किग्रा० W-4	1
		योग		2		2		2
24	खो खो X	अटेकर	X-1	2	-	2	-	2
		डिफेंडर	X-2	3	-	3	-	3
		आलराउन्डर	X-3	3	-	3	-	3
		योग		8		8		8
		कुल योग		176	174	350		196